



भारत का राजपत्र The Gazette of India


असाधारण,
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3— Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 194]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 3, 1979/वैशाख 13, 1901

No. 194]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 1979/VAISAKHA 13, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी गयी है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 3 मई, 1979

का. आ. 242 (अ)/18 व ख/आई डी आर ए/79.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 18 (अ)/18 व का/आई डी आर ए/79 तारीख 6 जनवरी, 1979 द्वारा सीतानगरम, जिला श्री काकुलम, आन्ध्र प्रदेश राज्य चीनी विनिर्माण करने वाली मैसर्स श्री राम शर्मा एंड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की यूनिट (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध ग्रहण उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 3 वर्ष की अवधि के लिए कर लिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के संबंध में इस अनुसूचित उद्योग के उत्पादन की मात्रा के गिराने से रोकने की दृष्टि से लोकोहित में बैसा करना आवश्यक है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 वख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण, पत्रों जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिभूत वारियंटों से भिन्न जाँ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिभूत वारियंटों से भिन्न हैं। उनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी में लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेंगे और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रवृत्त या उद्भूत होने वाली सभी अधिकार विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व उक्त अवधि तक निलंबित रहेंगे।

[सं. फा. 4/11/78-सी. बी. सी.]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 3rd May, 1979

S.O. 242(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 18(E)/18AA/IDRA/79, dated the 6th January, 1979, the Central Government authorised the Nizam Sugar Factory Limited, an undertaking of the Government of Andhra Pradesh, to take over the management of the unit of Messrs. Sri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Seethapagaram in the district of Srikakulam in the State of Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of three years ;

And, whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking, it is necessary so

to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or Company, shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[F. No. 4/11/78-CUC]

P. C. NAYAK, Jt. Secy.